



रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR

भारत सरकार : रेल मंत्रालय

Govt. of India (Ministry of Railways)



Website: www.rrbilaspur.gov.in

E-mail: rrbbsp@gmail.com

Phone: 07752-247291

Fax: 07752-417742

सं.आरआरबी/बीएसपी-4/04-2010/टीसी/रिप्लेसमेंट/555

दिनांक : 22.12.2017

रिप्लेसमेंट पैनल सूचना

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 04/2010, कोटि सं.-3-टिकट कलेक्टर,

रु.5200-202000, ग्रेड पे रु.1900

पे बैंड रु.5200-202000, ग्रेड पे रु.1900/- पर टिकट कलेक्टर के पद के लिए प्रकाशित इस कार्यालय के परिणाम सूचना संख्या आरआरबी/बीएसपी/डायवर्सन-पैनल/04-2010/ टीसी/507 दिनांक 03.01.2017 तथा पूर्व मध्य रेलवे, हाजिपुर द्वारा की गई माँग के क्रम में उन्हें रिप्लेसमेंट आधार पर रिप्लेसमेंट के लिए उपलब्ध संयुक्त स्टैंड बाई सूची में से 07 स्टैंड बाई उम्मीदवारों को टिकट कलेक्टर के पद के लिए मैरिट क्रम के अनुसार अनंतिम रूप से आवंटित किया जा रहा है।

उक्त 07 उम्मीदवारों के रोल नंबर संलग्नक-1 में सूचीबद्ध है और उन्हें सीईएन 04/2014 के अधोलिखित अनुच्छेद सं.13.06 के अनुसार रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात रिप्लेसमेंट आधार पर पूर्व मध्य रेलवे, हाजिपुर पर टिकट कलेक्टर के पद के लिए पैनल में रखा जा रहा है :-

“आवश्यकता होने पर, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय रेल में कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।”

उक्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यह रिप्लेसमेंट पैनल अनंतिम है तथा यह पैनल संबंधित रेलवे द्वारा उम्मीदवारी एवं संबंधित दस्तावेजों की जाँच के अधीन है, अतः जब तक अग्रलिखित शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक वे रेलवे में नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं हैं :- (क) संबंधित रेलवे के समक्ष अपनी पात्रता के समर्थन में उनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता, उम्र तथा समुदाय इत्यादि के मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना, इसमें वे सभी मूल दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी फोटो कॉपी टिकट कलेक्टर के पद के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई थी (ख) रिक्तियों की उपलब्धता (ग) निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण करना (घ) अपेक्षित प्रशासनिक औपचारिकताएँ/प्रक्रियाएँ पूर्ण करना तथा (ङ) नियुक्ति/वास्तविक पदभार ग्रहण करने के पूर्व उनके अँगूठे के चिह्न, फोटो, हस्ताक्षर, अक्षर और उनके आवेदन में दिए गए अन्य विवरणों का मेल खाना।

यदि बाद में कोई उम्मीदवार किसी आरआरबी द्वारा बहिष्कृत पाया जाता है या योग्यता, उम्र, समुदाय इत्यादि के संदर्भ में कोई विसंगतियाँ/अनियमिताएँ पाई जाती हैं तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

रिप्लेसमेंट पैनल हमारी वेबसाइट www.rrbilaspur.gov.in पर उपलब्ध है।

रिप्लेसमेंट पैनल को तैयार करने में सभी प्रकार की सावधानी बरती गई है, तथापि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की भूलचूक को सुधारने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर को है।

कृते
अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर

टिकट कलक्टर के पद के लिए
रिप्लेसमेंट आधार पर अनंतिम रूप से पैनल में शामिल उम्मीदवारों के रोल नंबर

रोल नंबर	रोल नंबर
30104011300121	30104012302658
30104011300409	30104013302911
30104011300859	30104014306484
30104012302112	xxxxxxxxxxxxx

कृते
अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर